

GIL/GKP/2024-25 June 07, 2024

BSE Limited Floor 25, P J Towers, Dalal Street, Mumbai- 400 001. INDIA Scrip Code: 532726 National Stock Exchange of India Limited "EXCHANGE PLAZA", Bandra – Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai- 400 051. INDIA Symbol: GALLANTT

Sir/Madam,

SUB: NEWSPAPER CUTTINGS FOR PUBLICATION OF NOTICE REGARDING TRANSFER OF UNCLAIMED FINAL DIVIDEND (2016-17) AND EQUITY SHARES TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF)

Please find attached herewith notice published through Newspapers - Business Standard (English - all edition) and Aaj (Hindi-Vernacular) intimating the shareholders to claim dividend remaining unclaimed and unpaid in respect of Final Dividend declared for the FY 2016-17. Notice further intimates that equity shares of those shareholders who have not claimed dividend for seven consecutive years are liable to be transferred to IEPF.

This is to further inform you that we have sent individual notices to the Shareholders whose dividend remain unclaimed and unpaid and are liable to be transferred to IEPF. Their dividend remains unclaimed & unpaid with the Unclaimed Dividend Account of the Company maintained by the Bankers.

Copies of the notice released in Newspapers are attached herewith for your record.

Please acknowledge the receipt and oblige.

Thanking You,

Your faithfully,

GALLANTT ISPAT LIMITED

Nitesh Kumar (CS & COMPLIANCE OFFICER) M. No. F7496

Encl: As above

GALLANTT ISPAT LIMITED

CIN: L27109UP2005PLC195660

Registered Office & Gorakhpur Unit: Gorakhpur Industrial Development Authority (GIDA), Sahjanwa, Gorakhpur - 273209, Uttar Pradesh

Tele-fax: 0551 3515500, E-mail: csgml@gallantt.com, Website: www.gallantt.com Gujarat Unit: Survey No. 175/1, Near Toll Gate, Samakhyali, Bhachau, Distt. Kutch - 370150, Gujarat

WIN FOR INDIA

SPORTS WATCH >>>>

mybs.in/t20wc

T20 WORLD CUP: COMPREHENSIVE

SUBHAYAN CHAKRABORTY New Delhi, 6 June

he Telecom Regulatory Authority of India (Trai) on Thursday issued a consultation paper on revising the National new phone numbers for the country's nearly 1.2 billion mobile phone connections.

In 2003, the Department of Telecommunications (DoT) conducted a comprehensive review and revision of the national number plan to accommodate the rapid increase in subscribers. Subsequently, the National Numbering Plan 2003 was designed to allocate numbering resources for 750 million telephone connections across the country.

"However, after 21 years, the availability of of telecommunication services," numbering resources is now at risk due to the expansion of services and the growth in the number of connections," Trai said.

With a tele-density of 85.69 per cent as of March 31, 2024, the regulator expects the cur-Numbering Plan to create a sustainable pool of rent total of 1,199.28 million telephone subscribers to continue rising.

The plan aims to assess all factors affecting the allocation and utilisation of Telecommunication Identifier (TI) resources and proposes potential modifications to enhance the allocation policies and utilisation procedures, ensuring an adequate reservoir of TI resources.

"It is crucial to assess the utilisation of TI's and make prudent policy decisions to ensure a sustainable reservoir for the continued growth

Trai said.

Currently, the DoT manages telecom identifiers for both fixed and mobile networks, following E.164 series of the International Telecommunication Union's Telecommunication Standardisation Sector (ITU-T) recommendations.

India's telecom landscape is currently undergoing a significant transformation driven by cutting-edge network architectures and services. The advent of 5G networks introduces

unprecedented possibilities, including ultrahigh-speed connectivity, minimal latency, and extensive device integration. In this intercon-

Plan aims to assess all factors affecting the allocation and utilisation of Tele-**Identifier**

nected ecosystem, TIs play a pivotal role in ensuring efficient communication and network management.

"The purpose of a National Numbering Plan is to ensure a structured approach for allocation and utilisation of TI resources, in line with international best practices," Trai said.

"It defines the numbering space and its evolution for existing and potential services, aiming to accommodate a wide range of services and facilitate efficient expansion without premature depletion," Trai added.

The comments on the consultation paper will be submitted by July 4.

Monsoon reaches Maharashtra: IMD

PRESS TRUST OF INDIA

Mumbai, 6 June

Southwest monsoon reached Maharashtra on Thursday, bringing respite to the state where many parts have been reeling under scorching heat and severe water shortage.

Meteorological Department (IMD) scientist Sunil Kamble said the monsoon has reached Sindhudurg district in south Konkan and Sangli and Kolhapur in west-

ern Maharashtra. It is likely to reach Mumbai between June 9 and 10, he added.

Several parts Maharashtra have been witnessing severe water shortage, with high temperatures exacerbating the situation.

As on Thursday, 11,565 villages and hamlets in 34 districts were being provided water through government and private tankers, according to official data

Ensure fire safety in hospitals: Health ministry to states/UTs

SANKET KOUL New Delhi, 6 June

The Ministry of Health and Family Welfare on Thursday asked all states and union territories (UT) to ensure implementation of critical fire and electrical safety measures at all healthcare facilities, as cases of hospital fire see an uptick in recent weeks.

In a review meeting chaired by Director General of Health Services Atul Goel asked all state and UT administrations to conduct regular preventive fire risk assessment drills to identify potentially vulnerable areas. It asked states to implement appropriate fire prevention measures such as proper storage of flammable materials and regular and optimal preventive maintenance of electrical circuits and systems

COMPILED BY ANISH KUMAR Stoinis helps Aus beat

Oman by 39 runs Half-centuries by opener David Warner (56 off 51 balls) and all-rounder Marcus Stoinis (67 not out off 36 balls) helped Australia begin their 2024 ICC Men's T20 World Cup campaign with a 39-run win against 0man at Kensington 0val, Bridgetown, Barbados, on Thursday. Batting first, Australia were restricted at 164/5 in 20 overs by 0man pacers, especially Mehran Khan (2/38). In reply, Oman managed only 125-9 as Stoinis (3/19), Mitchell Starc (2/20), Nathan Ellis (2/28) and

India thrashed Ireland by eight wickets in their opening Group A match at Nassau Cricket County Stadium on Wednesday night. After its pace quartet, led by Hardik

Pandya, bowled out Ireland for 96, India chased down the target with 46 balls to spare, winning the match by 8 wickets. Captain Rohit Sharma top-scored with a 37-ball 52 before retiring hurt, while wicketkeeper-batter Rishabh Pant

chipped in with 36* off 26 balls. India will next take on

arch-rivals Pakistan at the same venue on June 9 at 8 PM IST.

Brief scorecard

Australia: 164 for 5 in 20 overs (Warner 56, Mitchell Marsh 14, Stoinis 67*). Mehran Khan (2/38)

spinner Adam Zampa (2/24) took wickets at regular intervals.

Oman: 125 for 9 in 20 overs (Aqib Ilyas 18, Ayaan Khan 36, Mehran Khan 27; Marcus Stoinis 3/19, Mitchell Starc 2/20, Adam Zampa 2/24).

Uganda win in low-scoring thriller

Business Standard

Uganda secured their first win on Thursday morning, beating Papua New Guinea at the Providence Stadium in Guyana. Batting first, PNG were dismissed for just 77. Uganda chased the total with 10 balls to spare, winning the match by

South, East India accounted for 67% of heatwave days in 2023

New Delhi, 6 June

The number of heatwave days in east and southern peninsular India during peak summer in 2023 almost doubled and accounted for nearly two-thirds of the total heatwave days experienced across the country, the latest data released by the National Statistical Office (NSO) showed.

It comes even as the total number of heat wave days across the country declined by more than 40 per cent to 111 days in 2023 from 190 in the preceding year.

The latest environment data by NSO shows that among the 24 states and Union Territories, Bihar (18 days) has the most number of heatwave days in 2023, up from It was followed by Andhra Pradesh (15

days), Odisha (15 days), Jharkhand (13 days), West Bengal (8 days) and Tamil Nadu (6 days). These six states accounted for 67 per cent of the total heat wave days

Meanwhile, the states in the north and western part of the country saw a sharp decline in the number of heatwave days during the year.

While Rajasthan had only 3 heatwave days in 2023, down from 26 days in 2022; the number of heatwave days in Delhi and Haryana stood at 4 and 5, down from 17 and 24, respectively.

According to the India Meteorological Department (IMD), a heatwave is declared

WOCKHARDT LIFE WINS

WOCKHARDT LIMITED

Registered Office: D-4 MIDC, Chikalthana, Aurangabad - 431 006

Telephone: 91-240-6694444; Fax: 91-240-2489219

Mumbai - 400 051; CIN: L24230MH1999PLC120720

Email: investorrelations@wockhardt.com; Website: www.wockhardt.com

Notice of Annual General Meeting and e-voting

Notice is hereby given that the 25th Annual General Meeting of the Members of the

Company (the "AGM") will be held on Friday, June 28, 2024 at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the

In accordance with the General Circular dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5 2020, January 13, 2021, December 8, 2021, December 14, 2021, May 5, 2022,

December 28, 2022 and September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs

and Circulars dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022, January 5, 2023

and October 7, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), the

Notice of AGM and Annual Report including the Audited Financial Statements for the financial year 2023-24 have been sent in electronic mode to Members whose email IDs

are registered with the Company or the Depository Participant(s). The electronic

dispatch of the Annual Report and the Notice of AGM to Members has been completed

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with

Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended

and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015, the Company is providing the facility to all its Members (holding

shares either in physical or in electronic form) to exercise their vote on the resolutions

proposed to be considered at the AGM by electronic means through e-voting platform "remote e-voting") provided by National Securities Depository Limited ("NSDL").

a) The remote e-voting period begins on Tuesday, June 25, 2024 at 09.00 AM (IST)

and ends on Thursday, June 27, 2024 at 05.00 PM (IST). During this period.

Members of the Company holding shares either in physical or electronic form, as

on the Record Date / cut-off date i.e. Friday, June 21, 2024 may cast their vote

b) A person, whose name appears in the Register of Members/Beneficial Owners as

on the cut-off date i.e. Friday, June 21, 2024 will be entitled to vote through

remote e-voting or e-voting during the AGM. The voting rights of shareholders

shall be in proportion to the number of shares of the Company held by them as on

c) The remote e-voting shall not be allowed beyond 05.00 PM (IST) on Thursday,

d) The Annual Report for the financial year ended March 31, 2024 and the Notice of

AGM are also available on the website of the Company www.wockhardt.com. The

Notice of AGM is also available on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com,

on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange

of India Limited (www.nseindia.com), where the equity shares of the Company are

e) Any person, who becomes a Member of the Company after despatch of the Notice

of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. June 21, 2024, may obtain

Login ID and Password for e-voting by sending a request to evoting@nsdl.co.in

and if the Member is already registered with NSDL for remote e-voting, then he can

use his existing User ID and Password for casting the vote through remote e voting. For details related to remote e-voting, please refer the Notice of AGM.

f) The Members who cast their vote through remote e-voting shall be eligible to

n case of any queries/grievances related to remote e-voting, Members may refer to the

Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or write to Ms. Prajakta Pawle at

By Order of the Board of Directors

For Wockhardt Limited

Rashmi Mamtura

Company Secretary

the AGM and cast their vote during the AGM.

evoting@nsdl.co.in or call on 022-4886 7000.

Place: Mumbai

Date: June 6,2024

attend the AGM, but shall not be allowed to cast their vote again at the AGM. The

Members who have not cast their vote by remote e-voting shall be eligible to attend

businesses set forth in the AGM Notice dated May 28, 2024.


Further, it is also notified to the Members that:

through remote e-voting.

the cut-off date.

on June 6, 2024.

adquarters: Wockhardt Towers, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),



if the maximum temperature of a station reaches at least 40 degrees Celsius or more for plains, 37 degrees Celsius or more for coastal stations, and at least 30 degrees Celsius or more for hilly regions for two

A World Bank report released last year indicated that India is expected to suffer 2.5-4.5 per cent of GDP loss by 2030 from the lost labour hours owing to extreme heat and humidity conditions. According

to the report, 40 per cent of India's GDP is

dependent on heat-exposed work and by 2030, 34 million of 80 million job losses due to productivity decline from heat stress will be from India.

On the other hand, the number of cold wave days experienced during the winter season also declined to 33 days in 2023 from 49 days in 2022.

Delhi registered the highest number of cold wave days (5 days), followed by Haryana (4 days), Rajasthan (4 days) and Uttar Pradesh (3 days).

GALANT

GALLANTT ISPAT LIMITED CIN: L27109UP2005PLC195660

Regd. Office: Gorakhpur Industrial Development Authority (GIDA) Sahjanwa, Gorakhpur - 273209, Uttar Pradesh Tele-fax: 0551-3515500; www.gallantt.com; E-mail: csgml@gallantt.com NOTICE TO SHAREHOLDERS

Transfer of Unclaimed Final Dividend 2016-17 and Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

Pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended ("the Rules"), the Company is mandated to transfer the amount of Unclaimed Dividend remained unpaid for a period of seven years and equity shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more to IEPF established

n compliance with the said Rules, the Company has sent individual communication to the concerned shareholders at their registered address whose dividends remain unclaimed and whose equity shares are liable to be transferred to IEPF under the Rules. The Shareholders are advised to claim such dividends by September 30, 2024. The Complete details of the concerned shareholders are present on Company's website www.gallantt.com under Investors Comer

laimed by September 30, 2024, their entire equity shares will be transferred to IEPF, without any further notice and no claim shall lie against the Company or Company's Registrar and Share Transfer Agent in respect of equity shares so transferred to IEPF. Also, please note that Shareholders whose Unclaimed Final Dividend amount of F.Y. 2016-17 remaining unpaid and unclaimed shall be transferred to IEPF, if not claimed by the said date.

For shares which are in physical form and due for transfer to IEPF, the Company shall issue nev hare certificates in lieu of original share certificates for the purpose of transfer of shares to IEPF as per rules, and upon such issue, the original share certificates will stand automaticall elled and be deemed non-negotiable.

Shareholders may note that both the unclaimed Dividend and the Shares transferred to IEPF Authority / IEPF Account including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by them from IEPF Authority after following the procedure prescribed under the Rules.

n case shareholders have any queries on the subject matter and the Rules, they may contact Niche Technologies Private Limited, Company's Registrar and Share Transfer Agent at 7th Floor, Room, No. 7A & 7B, 3A, Auckland Road, Elgin, Kolkata, West Bengal 700017, Telephone: (033) 22806616/17/18; Fax: (033) 22806619; Email: nichetechpl@nichetechpl.com. Alternatively, Shareholders may contact Mr. Nitesh Kumar, Company Secretary, Gallantt Ispa. Limited at the Registered Office Address at Gorakhpur Industrial Development Authority (GIDA) Sahjanwa, Gorakhpur – 273209, Uttar Pradesh, Mobile: 9903462248, Telefax: 0551-3515500 -mail: csgml@gallantt.com.

For Gallantt Ispat Limited (Nitesh Kumar)

Company Secretary

Place: Gorakhpur

Date: June 06, 2024

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

HEAD OFFICE: PLOT NO. 4, SECTOR 10, DWARKA, NEW DELHI – 110075 Email: hosd@pnb.co.in

NOTICE OF THE 23rd AGM OF THE BANK TO BE **HELD THROUGH VC/OAVM** This has reference to our Newspaper Notice published

on 05.06.2024 regarding the 23rd Annual General Meeting of the shareholders of PUNJAB NATIONAL BANK to be held on Saturday, 29th June, 2024 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) in accordance with the relaxations accorded by MCA and SEBI, without the physical presence of shareholders at a common venue.

In accordance with the provisions of SEBI (LODR) Regulations 2015 and the aforesaid relaxations, the Annual Report for FY 2023-24 inter alia containing the Notice of AGM has been sent to the shareholders [whose email IDs are registered with the Bank/Depository Participant(s)] only through electronic mode. The same is available on the website of the Bank a https://www.pnbindia.in/annual-reports.html, on the websites of the Stock Exchanges, i.e., www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

Shareholders are requested to refer to the Notice of AGM for all relevant information/procedures in respect of the AGM.

> By Order of the Board of Directors For Punjab National Bank

Place: New Delhi Date: 07.06.2024

(Ekta Pasricha) **Company Secretary** **BS**mart Case Study Challenge

Crack the case and kickstart your career in media with Business Standard.

Persuading Digital-First Brands to **Embrace Print**

SYNOPSIS

Why brands in India, who are purely into TV and digital advertising, must not ignore print.

TIMELINE

25th **June** Submission Deadline

20th July Result Declaration

Download the BSmart app from rebrand.ly/BSmartChallenge and participate now To know more, write to us at campus.talk@bsmail.in

REWARDS

Interview with

for a job or

Business Standard

paid internship.











business-standard.com







गोरखपुर, शुक्रवार, ७ जून २०२४

रेलवे द्वारा



मिलने गये रविकिशन से योगी ने कहा-जनता की सेवा को दें पहली प्राथमिकता

गोरखपुर 06 जून ।गोरखपुर के मुझे फिर से अपना आशीर्वाद दिया चुना है। सांसद ने कहा कि परिवार सांसद रवि किशन शक्ला ने लखनऊ है। यह मेरी जीत नहीं यहां की जनता संग योगी का आशीर्वाद लिया। पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ और योगी भाजपा कार्यकर्ताओं की उन्होंने जीत के लिए मुझे का आशीर्वाद लिया। जीत के बाद जीत है। मैं इनकी खड़ाऊ रखकर शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही पहली बार उन्होंने सीएम योगी से यहां के लोगों की सेवा करता हूं और जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर



मुलाकात की एंवम उनके प्रति करता रहूंगा। सांसद ने कहा कि रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सांसद रिव किशन की पत्नी प्रिति रुपए की विकास परियोजनाएं चल कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। शुक्ला और उनकी बेटी रीवा शुक्ला रही हैं। यह पीएम मोदी और सीएम पीएम मोदी और सीएम योगी के ने कहा कि गोरखपुर की जनता ने की वजह से यहां की जनता ने मुझे ऐतिहासिक विकास हुआ है। यह

आभार व्यक्त किया। इस दौरान आज गोरखपुर में कई लाख करोड जनता की सेवा प्राथमिकता है। इन्हें भी मौजूद रहीं। सासंद रवि किशन योगी की देन है। इन्ही विकास कार्यों नेतृत्व में देश व उत्तर प्रदेश का

का 90 दिन का लक्ष्य प्राथमिकता के

तौर पर लिया गया है ।परिसर में तथा

परिसर के द्वारा अपने इको सिस्टम के

निर्माण में बढावा देना हाउस ऑफ

मोसियाक के सहयोग से डीडीयू ग्रीन

ट्रेनों का नियंत्रण पुनर्निर्धारण होगा गोरखपुर 6 जुन। रेलवे ह

परिचालनिक सुगमता हेतु उत्तर मण्डल के लखनऊ मण्डल के बाराबंकी-गोण्डा रेल खण्ड पर स्थित बाराबंकी-जहांगीराबाद स्टेशनों के मध्य इन्टरमीडिएट ब्लाक सेक्शन (आई.बी.एस.) की कमीशनिंग हेत ब्लाक दिये जाने के कारण गाड़ियों का नियंत्रण एवं पनर्निधारण किया जायेगा । कटिहार से 6 जून, को चलने वाली 15707 कटिहार-अमृतसर एक्सप्रेस लखनऊ जं0 तक 55 मिनट नियंत्रित कर चलाई गई। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 6 जून को चलने वाली 11079 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस मार्ग में 65 मिनट नियंत्रित कर चलाई गई। लखनऊ जं0 से 7 जुन को चलने वाली 15204 लखनऊ जं0-बरौनी एक्सप्रेस लखनऊ-मल्हौर के बीच 45 मिनट नियंत्रित कर चलाई जायेगी। लखनऊ जं0 से 7 जून को चलने वाली 12532 लखनऊ जं0-गोरखपुर एक्सप्रेस लखनऊ-मल्हौर के बीच 20 मिनट नियंत्रित कर चलाई जायेगी । ऐशबाग से 7 जून को चलने वाली 15070 ऐशबाग-गोरखपुर एक्सप्रेस लखनऊ-मल्हौर के बीच 10 मिनट नियंत्रित कर चलाई जायेगी। गोमतीनगर से 7 जून, को चलने वाली 15090 गोमतीनगर-गोडा

एक्सप्रेस गोमतीनगर से 60 मिनट

पुनर्निर्धारित कर 15.35 बजे के स्थान पर

16.35 बजे चलाई जायेगी।

तथ्य व साक्ष्यों के बाद ही स्वीकार करें अनपेक्षित घटना-मनोज सिन्हा

गोरखपुर 6 जून। महाप्रबन्धक,पूर्वोत्तर रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल के समक्ष कुछ ही वाद बिन्दु होते चाहिए, परन्तु छदा एवं फर्जी मामलों पर लगाम सुश्री सौम्या माथर के निर्देश एवं प्रमुख मुख्य 🝍 ,जिनमें टिब्युनल को अपना निर्णय देना होता है। लगाने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण के दौरान वाणिज्य प्रबन्धक मनोज कुमार सिन्हा की इसमें एक प्रमुख वाद बिन्दु बोनाफाइड यात्री का अनपेक्षित घटनाओं से सम्बन्धित प्रपत्रों की जांच अध्यक्षता में पूर्वोत्तर रेलवे में अनपेक्षित घटनाओं है। जांचकर्ता अधिकारी जब तक पूरी तरह से संतुष्ट 🛮 एवं रखरखाव, अनपेक्षित घटनाओं की परिभाषा, जैसे–यात्री गाड़ियों की दुर्घटना, यात्रियों के ट्रेन से 🕝 हो जाय तब तक बोनाफाइड यात्री के रूप में रेलवे अधिनियम की धारा–1989 के उपधारा 123 गिरने, अनपेक्षित रूप से व्यक्तियों के ट्रेन से कटने, 🛮 मण्डल रेल प्रबन्धक रिपोर्ट में स्वीकार नहीं किया 🛮 सी जिसमें अनपेक्षित दुर्घटनाओं, आतंकवादी

परिणामस्वरूप क्षतिपूर्ति के रूप में भारी धनराशि के भूगतान एवं फर्जी केसों की उत्पत्ति की रोकथाम के उद्देश्य से पूर्वोत्तर रेलवे के तीनों पंडलों के सहायक सुरक्षा आयुक्तों एवं अन्य सुरक्षा बल कर्मियों को प्रशिक्षित करने हेतु प्रशिक्षण शिविर का 5, 6 एवं 7 जून को गोरखपुर स्थित वाणिज्य विभाग के प्रगति कक्ष में आयोजित किया गया है, जिसके दूसरे दिन प्रमुख

प्रशिक्षण कार्यक्रम को सम्बोधित किया।

तथा उपयोगी सुझाव दिये। उन्होंने कहा कि रेलवे क्षतिपूर्ति का भुगतान अविलम्ब कर दिया जाना प्रशिक्षित किया गया ।

आतंकवादी घटनाओं, डकैती एवं ट्रेन दुर्घटनाओं जाना चाहिये। दूसरा वाद बिन्दु अनपेक्षित घटनाओं

घटना, डकैती, टेउन दुर्घटना एवं टेउन से यात्रियों

की गिरने की घटनायें आदि सम्मिलित हैं, के सम्बन्ध में रेलवे सुरक्षा बलकर्मी एवं जांच निरीक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

प्रशिक्षण के फ्लस्वरूप अनपेक्षित घटनाओं की जॉच, उससे सम्बन्धित प्रपत्रों का रखरखाव तथा मण्डल रेल प्रबन्धक रिपोर्ट सम्चित ढंग से तैयार हो सकेगी एवं फर्जी मामलों की उत्पत्ति पर नियंत्रण किया जा सकेगा, साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप से भुगतान की राशि पर

मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक मनोज कुमार सिन्हा ने के सम्बन्ध में होता है। ऐसे मामलों में जब तक भी अंकुश लगेगा । प्रशिक्षण कार्य का सम्पादन तथ्य एवं साक्ष्य नहीं मिल जाता तब तक अनपेक्षित मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक/दावा धीरेन्द्र कुमार की प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक मनोज कुमार घटना को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये। श्री देखरेख में किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर सिन्हा ने प्रशिक्षण कार्यक्रम को सम्बोधित करते. सिन्हा ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि. में 6 सितम्बर,2024 को 155 जांच निरीक्षकों एवं हुये अनपेक्षित घटनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला अनपेक्षित घटनाओं में वास्तविक पीड़ित यात्री को रेलवे सुरक्षा बल तथा वाणिज्य कर्मियों को

गोविवि व द हाउस आफ मुजैक के बाच

गोरखपुर,६ जून। प्रो पुनम टंडन , अपनी यात्रा शुरू की है। कलपति दीनदयाल विश्वविद्यालय तथा

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 17 द हाउस ऑफ मोजैक के फाउंडर वैश्विक लक्ष्यों का एक संग्रह है जिसे सीईओ अमरीश चंद्रा द्वारा सम्मिलित सभी के लिए एक बेहतर और स्थिर माध्यम से एसडीजी को समाज के तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भविष्य प्राप्त करने का खाका बनने के (एसडीजी) को मजबूर दिशा देने के लिए डिजाइन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र



कारीगरों को आवेदन करने की अंतिम तिथि २६ तक

के परंपरागत कारीगर बढ़ई, नाई, दर्जी, कुम्हार, लोहार, सोनार, टोकरी बुनकर, राजमिस्त्री, हलवाई, एवम

धोबो के आजीविका को सुदृढ़ बनाने हेतु प्रशिक्षण कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु जनपद में

उक्त प्रकार के कारीगरों को 10 दिवसीय प्रशिक्षण कराया जाना है। योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने

हेतु इच्छुक अभ्यर्थी 26 जून तक वेबसाइट https://diupmsme.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन

आवेदन कर सकते हैं। योजना में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग ही पात्र हैं । फोटो, आधार कार्ड, जाति

प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक, निवास प्रमाण पत्र एवं आयु संबधी प्रमाण पत्र इस योजना में लाभ प्राप्ति हेत्

समपार संरक्षा के प्रति

जागरूक किया गया

गोरखपुर 6 जून । सम्पूर्ण भारतीय मुख्य संरक्षा अधिकारी/यांत्रिक

रेल पर आज अन्तर्राष्ट्रीय समपार कार्तिकेय सिंह एवं उनकी टीम ने के

क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे पर प्रमुख मुख्य वैगन एवं टी.आई.(संरक्षा) ने

संरक्षा अधिकारी मकेश मेहरोत्रा के लखनऊ मंडल के गोरखपर-

नेतृत्व में अन्तर्राष्ट्रीय समपार आनन्दनगर रेल खंड पर स्थित

जागरूकता दिवस के अन्तर्गत समपार संख्या-10ए/बी, 14बी,

मुख्यालय गोरखपुर तथा वाराणसी, 24/बी, 29 स्पेषल एवं उप मुख्य

लखनऊ एवं इज्जत नगर मंडलों द्वारा संरक्षा अधिकारी/सिगनल राजेष

समपार जागरूकता के अनेक कुमार शर्मा के साथ सेफ्टी

कार्यक्रम आयोजित किये गये। काउंसलर/सिगनल ने वाराणसी

समपारों पर दुर्घटनाओं से बचाव एवं मंडल के गोरखपुर-देवरिया खण्ड

रोकथाम हेत् संरक्षा अधिकारियों पर समपार संख्या-152 स्पेषल,

तथा संरक्षा सलाहकारों ने विभिन्न 150/सी, 147/बी, 142 तथा 129

स्थानों पर नुकाड नाटक, संरक्षा स्पेशल पर आमजन को तथा सडक

संदेश, बैनर एवं पोस्टर का प्रदर्शन उपयोगकर्ताओं को रेल संरक्षा के

करते हुये सड़क उपयोगकर्ताओं एवं प्रति जागरूक किया एवं उनके बीच

जागरूकता दिवस के अवसर पर मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, ट्रक एवं

समपार संख्या-6सी. पिपराइच ऑटो रिक्षा चालकों को समपार पर स्टेषन एवं यार्ड का निरीक्षण कर बरती जाने वाली सावधानियों के

सड्क उपयोगकर्ताओं तथा रेल साथ-साथ वैधानिक प्रावधानों का कर्मचारियों को संरक्षा के प्रति पालन करते हुये सजग रहकर

जागरूक किया। उप मुख्य संरक्षा समपारों को सुरक्षित पार करने हेत

अधिकारी/इंजीनियरिंग काउन्सिलिंग किया गया इस दौरान

विल्सनलगुन एवं उनकी टीम द्वारा समपारों पर सचेत करने वाले संदेष

वाराणसी मंडल के गोरखपुर कैंट- छपे लगभग 4000 पैम्पलेट, 400

कप्तानगंज खण्ड पर समपार संख्या- स्टीकर, 800 थैले, कैप एवं टी-शर्ट

6/सी, 5 ए/सी, 5ए/बी1 तथा उप का वितरण किया गया।

प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी वितरित कराया।

संरक्षा संदेश लिखे हुए पम्फ्लेट

संरक्षा संगठन के कर्मचारियों द्वारा

ग्रामीणों को जागरूक किया।

मुकेश मेहरोत्रा ने अन्तर्राष्ट्रीय समपार

आवश्यक प्रपन्न हैं। उक्त जानकारी उपायुक्त उद्योग गौरव मिश्रा ने दी है।

गोरखपुर 6 जून । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत जनपद

मिलकर भारत का पहला पूर्ण एसडीजी अभियान के तहत गोरखपुर

लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ महासभा द्वारा 2015 में निर्धारित और .डीडीय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने वर्ष 2030 तक हासिल करने का इरादा अपने एसडीजी जागरूकता भागीदार द एसडीजी, संयुक्त राष्ट्र संकल्प 70/1. हाउस ऑफ मोसियाक के साथ 2030 एजेंडा का हिस्सा हैं।एसडीजी जागरूक विश्वविद्यालय बनने की विश्वविदयालय परिसर को तैयार करने

शिवम ने नीट में हासिल

इंटर्निशिप प्रोग्राम तथा सतत विकास

लक्ष्य के हर सत्रह लक्ष्यों को केंद्रित

सिंह विभागाध्यक्ष गृह विज्ञान विभाग

द्वारा किया गया साथ ही कुलसचिव प्रो

शान्तन् रस्तोगी , डायरेक्टर रिसर्च प्रो

किये ६७८ अंक Near Vikas Bhawan, Pandeykhola, Almora, गोरखपुर ६ जून। मेडिकल कालेज



शाह पुत्र गणेश शाह ने नीट प्रतियोगी परीक्षा जागरूकता दिवस मनाया गया। इसी साथ सेफ्टी काउंसलर/कैरेज एण्ड में ६७८ अंक लाकर परिवार का मान बढ़ाया शिवम की आल इण्डिया रैंक ९७१७ आई है। वर्तमान में शिवम संतकबीर नगर से बीएससी कर रहे हैं। इन्होंने इण्टर की परीक्षा सावित्री पब्लिक स्कल से की हैं। वे भविष्य में शोध क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय मात-पिता और गुरुजनों को दिया है।

दिनेश यादव . प्रो गौरहरि बेहरा . डॉ सांसद श्री शुक्ल ने बधाई देते हुए कहा जो प्यार और मोहब्बत पिछले 61 कि बाबीज रेस्टोरेंट ह्या का नया साल से मिला है उससे हम हर हाल प्रीति गप्ता डॉ अनुपमा कौशिक की विशेष उपस्थिति रही । उपक्रम गोरखपुर कि जनता के लिए में आगे भी कायम रखेंगे। इस दौरान Soban Singh Jeena Government Institute of Medical Science & Research Almora

& Mob. No. +91 9412410759 ZA PAN: AAAGS2989B

Distt-Almora-263601 (Uttarakhand)
mail - principal.gmcalmora@gmail.com, Website - http://www.ssigimsralmora.org

GSTIN: 05AAAGS2989B1ZA

Letter No.:- 80 GMCA/G-1/Advertisement/2022-23

TAN: MRTS16286E Date: 06 June, 2024

वॉक-इन-इंटरव्यू

सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान अल्मोड़ा में "सीनियर रेजीडेन्ट (नियत मानदेय रु. 90,350/-)" के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर 01 (एक) वर्ष जिसे अधिकतम् 03 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अभ्यर्थी की आयु एवं योग्यता एन.एम.सी., नई दिल्ली के मानकानुसार लागु मानी जायेगी। इस हेत् दिनांक 15 जन, 2024 से प्रतिदिन (सार्वजनिक अवकाश को छोडकर) को प्रात: 10.00 बजे से **''वॉक-इन-इंटरव्यू''** आयोजित कराया जायेगा तथा पद भरे जाने तक रिक्त पदों हेतु ''**वॉक-इन-इंटरव्यू'' कार्यालय,** प्राचार्य, सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान अल्मोड़ा, निकट विकास भवन, पाण्डेखोला, अल्मोड़ा, जिला-अल्मोडा, उत्तराखण्ड–263601 में आयोजित किया जायेगा।

सो.सिं.जी. राज. आयर्वि. एवं शो. संस्थान अल्मोडा

सांसद रविकिशन ने रामगढ़ताल स्थित जे.एस.आर. गार्डन में बाबीज रेस्टोरेंट का किया उदघाटन

गोरखपुर,६ जुन। गोरखपुर के बाबीज का नए रूप और नए स्वाद गौरांग अग्रवाल. डॉ सभांकित आर्या. नौका विहार रामगरताल क्षेत्र के व नए व्यंजन के साथ आया है।इस विकास भाटिया , तेजमीत सिंह व जे.एस.आर. गार्डन में बाबीज रेस्टोरेंट दौरान प्रबंधन से जुड़े अतुल मेहरोत्रा



के नए प्रतिष्ठान लेक साइड बाबीज ने आगंतुकों का स्वागत किया। का उदघाटन गोरखपुर के लोकप्रिय जबकि उदय मेहरोत्रा, आदित्य भाजपा सांसद व सिने अभिनेता रवि मेहरोत्रा एवं अमन मेहरोत्रा ने आभार किशन शुक्ल पूजा अर्चना के बाद जताते हुए यह भरोसा दिलाया कि फीता काटकर किया इस मौके पर बाबीज को गोरखपुर की जनता द्वारा

जे.एस.आर. गार्डन के संचालक अक्क्षत नारायन एंड चंदन बाबीज व अन्य गन्यमान्य जन मोजूद रहे।

श्री रामेष्ट सेवा समिति ने किया पौध रोपण, १०

हजार का लक्ष्य गोरखपुर ६ जुन। श्रीरामेष्ट सेवा समिति को ओर से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शहर के बरगदवा चौराहे के निकट ओबामाई मंदिर परिसर में पौधरोपण किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता एवे भाजपा नेता राज कुमार चौहान ने बताया कि समिति ने लगभग दस हजार पौध रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कार्यक्रम में राज कुमार चौहान के साथ-साथ अम्बिका प्रजापति, बाब् लाल चौहान, विनोद श्रीवास्तव, सुनील चौहान धीरज चौहान रवीन्द्र, रणजीत कन्नौजिया एवं राजन

अस्थाई ठहराव बढा

चौहान आदि उपस्थित थे।

गोरखपुर 6 जून। रेलवे द्वारा पुनदाग में आयोजित आनन्दमार्ग धर्म महासम्मेलन में आने वाले श्रद्धालओं की सुविधा हेतु पूर्व से दक्षिण पूर्व रेलवे Shareholders may note that both the unclaimed Dividend and the Shares transferred to IEPF के धनबाद-राँची रेल खंड पर स्थित 10 जून, तक 15028 गोरखपुर-हटिया एक्सप्रेस पुनदाग स्टेशन पर 04.32 बजे जून, तक 15027 हटिया-गोरखपुर एक्सप्रेस पनदाग स्टेशन पर 19.14 बजे पहुँचकर 19.15 बजे छुटेगी।

राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल), उत्तराखण्ड-263139

वॉक-इन-इंटरव्यू

राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी के विभिन्न विभागों हेतु सीनियर रेजिडेन्ट, डमोन्स्ट्रेटर∕सीनियर रेजिडेन्ट एवं डिमोन्स्ट्रेटर∕जूनियर रेजिडेन्ट के रिक्त पदों हेतु वॉक-इन-इंटरव्यू दिनांक 13 जून 2024 को को पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 02:00 बजे तक आयोजित किया जायेगा। पदों की विस्तृत जानकारी हेतु राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी की बेवसाइट:-www.gmchld.org

ww.medicaleducation.uk.gov.in देखें।

विज्ञापन संख्या - 326/जीएमसी/नियु0

राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी

GALLANTT

GALLANTT ISPAT LIMITED

Regd. Office: Gorakhpur Industrial Development Authority (GIDA) Sahjanwa, Gorakhpur - 273209, Uttar Pradesh Tele-fax: 0551-3515500; www.gallantt.com; E-mail: csgml@gallantt.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Transfer of Unclaimed Final Dividend 2016-17 and Equity Shares of the Co

Investor Education and Protection Fund (IEPF)
Pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended ("the Rules"), the Company is mandated to transfer the amount of Unclaimed Dividend remained unpaid for a period of seven years and equity shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more to IEPF established

n compliance with the said Rules, the Company has sent individual communication to the concerned shareholders at their registered address whose dividends remain unclaimed and whose equity shares are liable to be transferred to IEPF under the Rules. The Shareholders are advised to claim such dividends by September 30, 2024. The Complete details of the concerned shareholders are present on Company's website www.gallantt.com under investors Come

The concerned shareholders are requested to take note that in case the dividends are not claimed by September 30, 2024, their entire equity shares will be transferred to IEPF, without any further notice and no claim shall lie against the Company or Company's Registrar and Share Transfer Agent in respect of equity shares so transferred to IEPF. Also, please note that Shareholders whose Unclaimed Final Dividend amount of F.Y. 2016-17 remaining unpaid and unclaimed shall be transferred to IEPF, if not claimed by the said date. For shares which are in physical form and due for transfer to IEPF, the Company shall issue new

share certificates in lieu of original share certificates for the purpose of transfer of shares to IEPF as per rules, and upon such issue, the original share certificates will stand automatically

Authority / IEPF Account including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by them from IEPF Authority after following the procedure prescribed under the Rules.

पुनदाग स्टेशन पर गाड़ियों का 1 मिनट In case shareholders have any queries on the subject matter and the Rules, they may contact को दिया जा रहा अस्थाई ठहराव 11 जून, 2024 तक बढ़ाया जा रहा है (फ्लस्वरूप (033) 22806616/17/18; Fax: (033) 22806619; Email: nichetechpl@nichetechpl.com. Alternatively, Shareholders may contact Mr. Nitesh Kumar, Company Secretary, Gallantt Ispat Limited at the Registered Office Address at Gorakhpur Industrial Development Authority (GIDA). एक्सप्रस पुनदाग स्टशन पर 04.32 बर्ज पहुँचकर 04.33 बर्ज छूटेगी तथा 11 E-mail: csgml@gallantt.com.

For Gallantt Ispat Limited

Date: June 06, 2024 Place: Gorakhpur

(Nitesh Kumar) Company Secretary

GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE RAMPUR ROAD, HALDWANI, NAINITAL, UTTARAKHAND-263139 EL. No. 05946-255255, 255926, 282578, FAX: 05946-282578 Website: www.gmchld.org, email:principal-gmchld-uk@gov.ir

Walk-In-Interview

In order to strengthen the faculty position (Speciality & Super Speciality) for U.G./P.G. courses at Government Medical College, Haldwani (Nainital) a "Walk-In-Interview" will be held on 21st June, 2024 (Friday) from 11:00 AM onwards, in the "Office of the Principal, Government Medical College, Haldwani (Nainital), Ultarakhand". The appointments will be made on the contractual basis initially for one year, which may be further extendable annually, subject to a satisfactory appraisal report by the concerned Head of Department, for a maximum tenure of 03 years only or till regular appointment are made. The vacancy position in various departments is as given below:-

S.NO.	Department	Designation		
		Professor	Associate Professor	Assistant Professor
1	Anatomy (MD/MS/DNB)	20.1	01	01
2	Physiology (MD/DNB)	22.1	01	03
3	Pharmacology (MD/DNB)	- 81	01	01
4	Microbiology (MD/DNB)	201	01	03
5	Forensic Medicine (MD/DNB)	01	01	let.
6	Community Medicine (MD/DNB)	an an	02	05
7	General Medicine (MD/DNB)	#0	03	10
8	T.B. Chest (MD/DNB)	240	01	02
9	Skin V.D (MD/DNB)	27.4	01	1.55
10	Psychiatry (MD/DNB)	01	01	144
11	Paediatrics (MD/DNB)	201	02	01
12	General Surgery (MS/DNB)	29.1	02	10
13	Ophthalmology (MS/DNB)	227	31	.01
14	Orthopaedics (MS/DNB)	#4.1	01	01
15	E.N.T. (MS/DNB)	44	01	H
16	Gynaecology & Obstetrics (MD/MS/DNB)	E1	02	04
17	Radiology (MD/DNB)	01	02	02
18	Anesthesiology (MD/DNB)	- 5/	03	7.5
19	Neuro Surgery (M.Ch./DNB)	.01	01	l ee
20	Urology (M.Ch./DNB)	01	Ti .	01
21	Plastic Surgery (M.Ch./DNB)	01	01	01
22	Nephrology (DM/DNB)	01	01	01
23	Cardiology (DM/DNB)	01	01	01

Professor Associate Professor Assistant Professor Age: As per N.M.C. norms

Advt No. 325/ GMC / Apptt. Date : 06 /06/2024

:- Rs. 1,43,000/-p.m. fixed (Annual increment Rs. 6000/-) :- Rs. 1,23,000/-p.m. fixed (Annual increment Rs. 6000/-) :- Rs. 95,000/-p.m. fixed (Annual increment Rs. 3600/-)

Age: As per N.M.C. norms.

Qualification for Faculty: As per N.M.C. Norms.

Reservation: As per Ultarakhand State Govt. Rules.

No TA/DA will be admissible for attending the interview. The Chairman, interview committee reserves the right to accept/reject any application without assigning any reason and also reserves the right to fill or not to fill any of the the post. Number of posts advertised may be increased or decreased as per requirement. Candidate must bring their resume along with original MBBS, MD/MS/DM/MCh/DNB degree, Medical Council/State Council Registration certificate, Experience Certificate and Undergraduate teaching certificate during MD/MS/DM/MCh/DNB course on concerened speacity/superspeacity and other relevant documents, Candidate working in any Central/State Government sector requires No objection certificate (N.O.C.) from his employer for appearing in interview. Candidate should also bring a set of photocopies of all relevent documents along with two recent passport size color photographs which will be needed at the time of Interview.

PRINCIPAL.

GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, HALDWAN

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय : युनिट नं. ८०२, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं

एम.वी. रोड,अंघेरी (पूर्व) मुम्बई - 400069 गोरखपुर शाखा: शोंप नंबर 3, 0122 सी, दाजदपुर, देवरिया बाईपास के पास, गोरखपुर - 273001 (जत्तर प्रदेश) बस्ती शाखा: प्रथम तल, मकान नंबर 1323, मोहला पिकौरा शिव गुलाम, कटेश्वर पार्क के पास, गांची नगर, बस्ती-272001, (ज. प्र.)

मांग सूचना

सिक्यूरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एस्सेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंट्स्ट एक्ट 2002 के साथ सपठित सिक्यूरिटी इंट्रेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम 2002 का नियम 3(1) के साथ घारा 13(2) के अंतर्गत सूचना सिक्यूरिटाईजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एस्सेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंटेस्ट एक्ट 2002 (उपरोक्त कानून) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता आधार हाउसिंग फायनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड (AHFL) के प्राधिकृत अधिकारी है। उपरोक्त कानुन की घारा 13(12) के साथ संपठित सिक्युरिटी इंटेस्ट (इंफोर्समेंट) एक्ट, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 13(2) के अंतर्गत नीचे वर्णित निम्न ऋणकर्ता (ऑ) (उपरोक्त ऋणकर्ता (ऑ)) को संबंधित मांग सूचना (ओं) में वर्णित राशि का पूर्णमुगतान करने के लिए बुलाये जाने के लिए जारी की गई थी। उपरोक्त संबंध में एक बार पुन: उपरोक्त ऋणकर्ता (ऑ) को पुन: सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिवस के अंदर नीचे वर्णित राशि के साथ नीचे वर्णित दिनांक से भुगतान की दिनांक एवं/या पुर्न प्राप्ति तक लागू मय ब्याज के उपरोक्त ऋणकर्ता (ऑ) से किए गए ऋण अनुबंध के साथ अन्य दस्तावेजो / लिखित में यदि कोई हो , के अंतर्गत देय राशि का मुगतान करें । जैसा कि ऋण के पुर्न मुगतान की जमानत के लिए निम्न संपत्ति को उपरोक्त संबंधित ऋणकर्ता (ओं) द्वारा AHFL को गिरवी रखा गया है।

Ġ,	उघारकर्ताओं एवं सह-उघारकर्ता / जमानतदार के नाम	मांग पत्र की दिनांक एवं मांग राशि	प्रतिभूतित आस्तियाँ का विवरण (अचल संपत्ति/यां)
1	(लोन कोड नं. 07100000934/ गौरखपुर शाखा) पवन (ऋणी), स्नेहा लता (सह-ऋणी)	00-00-2024	संपचि का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण माग, अरजी नं. 1249िम, मौजा चिरुहा, मौपाकड़ परगना हवेली, तह. महाराजगंज, जिला महाराजगंज, गौरखपुर उत्तर प्रदेश 273302
	(लोन कोड नं. 3090000025/ बस्ती शाखा) राजेश कुमार अग्रहरी (ऋणी), कलावती देवी एवं रामकुमार (सह-ऋणी)		संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण माग, खसरा नं. 211 के भाग पर मकान, ग्राम राजजोत कला, कपटनगंज परगना नगर, पश्चिम, बस्ती उत्तरप्रदेश 272131

यदि उपरोक्त ऋणकर्ता उपरोक्त राशि का AHFL को भुगतान करने में असफल रहते है तो AHFL उपरोक्त संपत्ति के विरुद्ध कानून की धारा 13 (4) एवं लागू नियम के अंतर्गत ऋणकर्ता के पूर्ण जोखिम मूल्य एवं परिणाम पर कार्यवाही करेगी। उपरोक्त ऋणकर्ताओं को कानून के अंतर्गत संपत्ति का विक्रय, किराया या अन्य प्रकार से बिना AHFL के लिखित अनुमति के बिना हस्तांतरित करने पर प्रतिबंधित किया जाता है कोई व्यक्ति जो कि उपरोक्त कानून या नियम में दिए गए प्रावधानों का उल्लंधन या उल्लंधन करने को बढावा देता है उसे उपरोक्त कानून के अंतर्गत प्रदत जुर्माना या /एवं कारावास के लिए दंड दिये जाने के योग्य होगा।

सही/- प्राधिकृत अधिकारी

वास्ते – आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

स्थान : उत्तर प्रदेश दिनांक: 07.06,2024